



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1828]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 2008/पौष 10, 1930

No. 1828]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 2008/PAUSA 10, 1930

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2008

का.आ. 3001(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1050(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2008 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा पंजाब राज्य के रूपनगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 के 66.500 कि.मी. से 73.200 कि.मी. (कुराली-कीरतपुर सेक्शन) तक के भूखंड का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 29 मई, 2008 को “दि इण्डियन एक्सप्रेस” (अंग्रेजी) और “पंजाबी ट्रिब्यून” (पंजाबी) दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और, सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लिंगमें से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

| पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 के 66.500 कि. मी. से 73.200 कि. मी. तक (फुराली से किरतपुर खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण। | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|----------------------|--|
| क्रम संख्या | जिला का नाम | तहसील का नाम | गाँव का नाम / एच. की. संख्या | सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | भूमि का क्षेत्रफल कनाल - मरला में | क्षेत्रफल हैक्टर में | भूस्वामी/हितवांछ व्यक्तियों के नाम |
| 1 | रूपनगर | आनंदपुर साहिब | 1. फतेहपुर हदबस्त न: 320 | 39 | पंचायत भूमि | गेर मुमकिन पहाड़ | 3-8 | 0.17068 | नरिंदर सिंह - मुखमिशन सिंह - रविंदर सिंह पुतरन जोधवीर सिंह बरबर 1/36 भाग, रघुवीर सिंह - जखेर सिंह पुतरन रविंदर सिंह पुत्र जोधवीर सिंह बरबर 1/36 भाग, आत्मा सिंह पुत्र भगवान सिंह 1/6 भाग |
| | | | | | | | | | प्रेम सिंह - लखवीर सिंह - सुखवीर सिंह पुतरन इंदर सिंह बरबर 1/72 भाग, राजा राम पुत्र सुलेख चंद 1/12 भाग, सुलेख चंद पुत्र पून चंद 1/12 भाग |
| | | | | | | | | | जकुंतला देवी विधवा 1/36 भाग, राज कुमार - पारस राम - सिद्ध मोहन - ओमप्रकाश - सलमान पुतरन पून बरबर 1/18 भाग, सरदार बत्ती - जगू पुत्र तथा निजामे विधवा गीर पुत्र बाबू बरबर 31/72 भाग, गुरदेव सिंह पुत्र बप्पन सिंह 1/12 भाग |
| | | | | | | | एकड़ - कनाल - मरला | | |
| | | | | | | कुल | 0-3-8 | 0.17068 | |
| | | | 2. हरबोल हदबस्त न: 318 | 31/3/2 | निजी भूमि | कृषि | 0-4 | 0.01004 | जोगिंदर सिंह - बहिंदर सिंह पुतरन लखन सिंह बरबर 1/2 भाग, श्रीमती करबीत कौर पत्नी गहिंदर सिंह 6/33 भाग, खरबन सिंह - श्रीराम सिंह पुतरन राम किशन बरबर 7/22 भाग |
| | | | | | | | एकड़ - कनाल - मरला | | |
| | | | | | | कुल | 0-0-4 | 0.01004 | |
| | | | 3. मेनपुर हिंदौर हदबस्त न: 317 | 7/6/1 | निजी भूमि | कृषि | 1-3 | 0.05773 | श्रीमती सलिनंद कौर पत्नी गुरदेव सिंह पुत्र करतार सिंह |
| | | | | 8/10 | निजी भूमि | कृषि | 0-10 | 0.0251 | श्रीमती सलिनंद कौर पत्नी गुरदेव सिंह पुत्र करतार सिंह |
| | | | | 8/11/1 | निजी भूमि | कृषि | 2-15 | 0.13805 | श्रीमती सलिनंद कौर पत्नी गुरदेव सिंह पुत्र करतार सिंह |
| | | | | 8/11/2 | निजी भूमि | कृषि | 0-15 | 0.03765 | श्रीमती सलिनंद कौर पत्नी गुरदेव सिंह पुत्र करतार सिंह |
| | | | | 20 | निजी भूमि | कृषि | 1-19 | 0.091789 | श्रीमती सलिनंद कौर पत्नी गुरदेव सिंह पुत्र करतार सिंह |

| | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|---------|-------------|------------------------------|----------------|---------|--|
| | | | 21 | निजी भूमि | कृषि | 0-14 | 0.03514 | श्रीमती रतिलाल कौर पत्नी मुख्तार सिंह पुत्र करतार सिंह |
| | | | 26 | निजी भूमि | गैर मुनफिन | 0-4 | 0.01004 | श्रीमती रतिलाल कौर पत्नी मुख्तार सिंह पुत्र करतार सिंह |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | एकड़—कनाल—मरला | | |
| | | | | | कुल | 0-8-0 | 0.4016 | |
| | | | | | | | | |
| | | 4. कल्याणपुर डबलर नं: 346 | 931/249 | पंचायत भूमि | गैर मुनफिन पहाड़ | 2-19 | 0.14809 | ग्राम पंचायत |
| | | | 251 | पंचायत भूमि | गैर मुनफिन मुख्तार, राम बलजी | 0-10 | 0.0251 | करतार सिंह—हरपाल सिंह—परीवीन सिंह पुत्र तथा जसवंत कौर विधवा प्रीतम पुत्र चरन सिंह बरकर 1/2 भाग, आनंद सिंह पुत्र चरन सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/2 भाग (गैर मरली) इमार सिंह पुत्र बंता सिंह तथा सुरजीत कौर पत्नी इमार सिंह बरकर भाग (गैर मरली) |
| | | | 252 | पंचायत भूमि | गैर मुनफिन आकासी/दुकान | 0-16 | 0.04016 | करतार सिंह—हरपाल सिंह—परीवीन सिंह पुत्र तथा जसवंत कौर विधवा प्रीतम पुत्र चरन सिंह बरकर 1/2 भाग, आनंद सिंह पुत्र चरन सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/2 भाग (गैर मरली) भगत सिंह पुत्र समर 107/112 भाग तथा जगत सिंह पुत्र प्यार सिंह पुत्र बंता सिंह (गैर मरली) 5/112 भाग |
| | | | 253 | पंचायत भूमि | गैर मुनफिन आकासी/पुस्तक | 0-8 | 0.01506 | करतार सिंह—हरपाल सिंह—परीवीन सिंह पुत्र तथा जसवंत कौर विधवा प्रीतम पुत्र चरन सिंह बरकर 1/2 भाग, आनंद सिंह पुत्र चरन सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/2 भाग (गैर मरली) |
| | | | | | | | | इमार सिंह पुत्र बंता सिंह तथा सुरजीत कौर पत्नी इमार सिंह बरकर भाग (गैर मरली), करतार सिंह—हरपाल सिंह—परीवीन सिंह पुत्र तथा जसवंत कौर विधवा प्रीतम पुत्र चरन सिंह बरकर 1/2 भाग, आनंद सिंह पुत्र चरन सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 1/2 भाग (गैर मरली) |
| | | | 254 | पंचायत भूमि | गैर मुनफिन आकासी | 9-11 | 0.47941 | पंचायत भूमि 547/637 भाग, बिलानी पत्नी बीनाराम पुत्र रामविरत 5/637 भाग, रेन कौर पुत्री बलदेव सिंह 5/637 भाग, हरभजन सिंह पुत्र निक्कू 5/637 भाग, अर्जुन—रजनी पुतराम चेतू बरकर 10/637 भाग |
| | | | | | | | | कुसवंत सिंह पुत्र अनूप सिंह 5/637 भाग, राम सिंह पुत्र भोल सिंह 5/637 भाग, प्रकाश पुत्र श्रीराम 5/637 भाग, बलदेव सिंह—हरदेव सिंह पुतराम राम किरतन 5/637 भाग |
| | | | | | | | | सोनिया पत्नी डरी सिंह 5/637 भाग, पून पुत्र भोल राम 5/637 भाग, मुसजारा पुत्र डरीराम 5/637 भाग, दर्शन पुत्र पून 5/637 भाग, बिजनेशन पुत्र सुरविरत 5/637 भाग, रंजीत सिंह पुत्र प्रीतम सिंह 10/637 भाग |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|------|----------------|------|---------|--|
| | | | | | | | | गुरदेव सिंह-सुरिंदर सिंह-कुलवंत सिंह पुत्र साधू सिंह बराबर 2/7 भाग, गुरनाम सिंह पुत्र जंग सिंह पुत्र सुरिंदर सिंह 1/14 भाग, बिशन सिंह-करतार सिंह पुत्र राम सिंह पुत्र भगवान सिंह बराबर 1/14 भाग, बंत सिंह पुत्र गुरबख्त सिंह पुत्र चेत सिंह 1/7 भाग |
| | | | 383 | निजी | बंजर कदीम | 0-8 | 0.02008 | रंजीत सिंह-बिकन सिंह-रविंदर सिंह पुत्र तथा प्रोपती विधवा निर्मल सिंह बराबर 1/4 भाग |
| | | | 384 | निजी | बंजर कदीम | 0-14 | 0.03514 | बख्ता सिंह-सुच्या सिंह पुत्र वसुदेव सिंह पुत्र ठाकुर सिंह बराबर 8/21 भाग, माया देवी विधवा सुरिंदर सिंह पुत्र गुरदियाल सिंह 1/84 भाग, गुरमीत सिंह-अमर सिंह-बरजिंदर सिंह पुत्र गुरदियाल सिंह पुत्र वसुदेव सिंह बराबर 1/28 भाग |
| | | | | | | | | गुरदेव सिंह-सुरिंदर सिंह-कुलवंत सिंह पुत्र साधू सिंह बराबर 2/7 भाग, गुरनाम सिंह पुत्र जंग सिंह पुत्र सुरिंदर सिंह 1/14 भाग, बिशन सिंह-करतार सिंह पुत्र राम सिंह पुत्र भगवान सिंह बराबर 1/14 भाग, बंत सिंह पुत्र गुरबख्त सिंह पुत्र चेत सिंह 1/7 भाग |
| | | | 385 | निजी | बंजर कदीम/होटल | 0-16 | 0.04016 | बख्ता सिंह-सुच्या सिंह पुत्र वसुदेव सिंह पुत्र ठाकुर सिंह बराबर 8/21 भाग, माया देवी विधवा सुरिंदर सिंह पुत्र गुरदियाल सिंह 1/84 भाग, गुरमीत सिंह-अमर सिंह-बरजिंदर सिंह पुत्र गुरदियाल सिंह पुत्र वसुदेव सिंह बराबर 1/28 भाग |
| | | | | | | | | गुरदेव सिंह-सुरिंदर सिंह-कुलवंत सिंह पुत्र साधू सिंह बराबर 2/7 भाग, गुरनाम सिंह पुत्र जंग सिंह पुत्र सुरिंदर सिंह 1/14 भाग, बिशन सिंह-करतार सिंह पुत्र राम सिंह पुत्र भगवान सिंह बराबर 1/14 भाग, बंत सिंह पुत्र गुरबख्त सिंह पुत्र चेत सिंह 1/7 भाग |
| | | | 386 | निजी | बंजर कदीम/होटल | 1-19 | 0.09789 | बख्ता सिंह-सुच्या सिंह पुत्र वसुदेव सिंह पुत्र ठाकुर सिंह बराबर 8/21 भाग, माया देवी विधवा सुरिंदर सिंह पुत्र गुरदियाल सिंह 1/84 भाग, गुरमीत सिंह-अमर सिंह-बरजिंदर सिंह पुत्र गुरदियाल सिंह पुत्र वसुदेव सिंह बराबर 1/28 भाग |
| | | | | | | | | गुरदेव सिंह-सुरिंदर सिंह-कुलवंत सिंह पुत्र साधू सिंह बराबर 2/7 भाग, गुरनाम सिंह पुत्र जंग सिंह पुत्र सुरिंदर सिंह 1/14 भाग, बिशन सिंह-करतार सिंह पुत्र राम सिंह पुत्र भगवान सिंह बराबर 1/14 भाग, बंत सिंह पुत्र गुरबख्त सिंह पुत्र चेत सिंह 1/7 भाग |
| | | | 403 | निजी | बरानी | 0-11 | 0.02761 | रजनीश कुमार-राजन कुमार पुत्र रामनाथ पुत्र किशन चंद 88/130 भाग, राकेश कुमार पुत्र बित्तबर दास पुत्र बसंता, राकेश कुमार पुत्र मनोहर लाल पुत्र दया राम बराबर 22/130 भाग, मान सिंह पुत्र सोहन सिंह पुत्र भोल बराबर 22/130 भाग |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|-------------|---|------|---------|---|
| | | | 255 | पंचायत भूमि | आवासी / गैर मुनिकिन पहाड़ | 9-16 | 0.49196 | ग्राम पंचायत |
| | | | 256 | पंचायत भूमि | दुकान / पहाड़ | 12-9 | 0.62499 | जोगिंदर सिंह पुत्र नानक सिंह पुत्र चंदा सिंह (गैर मकली), कुलवीर सिंह - जलवीर सिंह पुतलन उत्तम सिंह बरबर भाग (गैर मकली), तिलक राज - राजनीश कुमार पुतलन गंगात राम बरबर भाग (गैर मकली), गुरुधन सिंह पुत्र आशा सिंह (गैर मकली), महिंदर कौर पुत्री अमर सिंह (गैर मकली) |
| | | | 257 | निजी | गैर मुनिकिन रास्ता | 0-6 | 0.01506 | ग्राम पंचायत |
| | | | 258 | निजी | गैर मुनिकिन पहाड़ | 0-5 | 0.01255 | ग्राम पंचायत |
| | | | 934/261 | सरकारी | पंजाब राज्य बिजली विभाग / गैर मुनिकिन नहर | 4-18 | 0.24598 | पंजाब राज्य बिजली विभाग |
| | | | 935/261 | पंचायत भूमि | गैर मुनिकिन पहाड़ | 0-12 | 0.03012 | ग्राम पंचायत |
| | | | 938/262 | पंचायत भूमि | गैर मुनिकिन पहाड़ | 3-8 | 0.17068 | पंजाब राज्य बिजली विभाग |
| | | | 272 | पंचायत भूमि | बंजर कदीम | 0-13 | 0.03263 | ग्राम पंचायत |
| | | | 273 | पंचायत भूमि | गैर मुनिकिन पहाड़ | 0-13 | 0.03263 | ग्राम पंचायत |
| | | | 276 | निजी | बंजर कदीम | 0-8 | 0.02008 | तार्लोक सिंह पुत्र बीर सिंह पुत्र आका सिंह 59/146 भाग, राजनीश कुमार - राजन कुमार पुतलन रामनाथ पुत्र किशन दास 73/146 भाग, राकेश कुमार पुत्र सिंघर दास 7/146 भाग, राकेश कुमार पुत्र मनोहर दास 7/146 भाग |
| | | | 276/1 | निजी | बंजर कदीम | 0-8 | 0.02008 | राकेश कुमार पुत्र सिंघर दास पुत्र वसंत, राकेश कुमार पुत्र मनोहर दास पुत्र दया राम बरबर भाग |
| | | | 987/376 | निजी | बरानी | 0-17 | 0.04267 | रमति देवी विधवा लक्ष्मी - सीधार सिंह - बलवीर सिंह पुत्र पैन सिंह पुत्र किशन सिंह बरबर 1/2 भाग, भुविंदर कौर विधवा लक्ष्मी जलवीर सिंह पुत्र मुल्लू सिंह पुत्र किशन सिंह बरबर 1/3 भाग, गुरुनारा सिंह पुत्र जंग सिंह पुत्र सुंदर सिंह 1/6 भाग |
| | | | 378 | निजी | गैर मुनिकिन कोठान | 1-10 | 0.0753 | मेहरी कोठान टार्लोक कम्पनी, सिमला |
| | | | 379 | निजी | बंजर कदीम | 1-13 | 0.08283 | अमृतलाल सुतान पुत्र राम लाल पुत्र जयगोपाल |
| | | | 381 | निजी | बंजर कदीम / आवासी | 0-15 | 0.03765 | अमृतलाल सुतान पुत्र राम लाल पुत्र जयगोपाल 62/102 भाग, रामधन पुत्र देवीवल्ल पुत्र लाल राम 22/102 भाग, सुषमा सिंह पुत्र लाल राम पुत्र देवी दत्त 20/102 भाग |
| | | | 382 | निजी | गैर मुनिकिन पौव | 0-10 | 0.0251 | बल्लू सिंह - दुग्गा सिंह पुतलन बाबुदेव सिंह पुत्र ठाकुर सिंह बरबर 8/21 भाग, काया देवी विधवा सुरिंदर सिंह पुत्र सुरिंदर सिंह 1/84 भाग, गुरुनारा सिंह - अमर सिंह - बरजिंदर सिंह पुतलन सुरिंदर सिंह पुत्र बाबुदेव सिंह बरबर 1/28 भाग |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|------|-----------------|------|---------|---|
| | | | 1104/404 | निजी | बराही | 0-13 | 0.03263 | अशोक कुमार पुत्र चिरंजीलाल पुत्र हरी चंद |
| | | | 1105/946/405 | निजी | बराही | 1-16 | 0.09036 | राम सिंह पुत्र काशी राम 1/2 भाग, ज्ञान सिंह - गौरव सिंह - संगत सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह बराबर 3/8 भाग, जसविंदर सिंह - कुलविंदर सिंह पुत्र राम ठाकुर सिंह बराबर 1/8 भाग |
| | | | 1107/408/2 | निजी | बराही | 1-11 | 0.07781 | राम सिंह पुत्र काशी राम 1/2 भाग, ज्ञान सिंह - गौरव सिंह - संगत सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह बराबर 3/8 भाग, जसविंदर सिंह - कुलविंदर सिंह पुत्र राम ठाकुर सिंह बराबर 1/8 भाग |
| | | | 1108/408/1 | निजी | बराही | 0-9 | 0.02259 | रमेश चंद पुत्र अयोध्या प्रसाद पुत्र नुसी राम |
| | | | 410 | निजी | बंजर कदीम | 0-16 | 0.04016 | शान्ति देवी विधवा तथा प्यार - दीदार सिंह - बलबीर सिंह पुत्र चैन सिंह पुत्र किसान सिंह बराबर 1/2 भाग, सुमनलता पत्नी बीरबल पुत्र रामरतन 1/2 भाग |
| | | | 411 | निजी | बंजर कदीम | 0-11 | 0.02761 | शान्ति देवी विधवा तथा प्यार - दीदार सिंह - बलबीर सिंह पुत्र चैन सिंह पुत्र किसान सिंह बराबर 1/2 भाग, सुमनलता पत्नी बीरबल पुत्र रामरतन 1/2 भाग |
| | | | 416 | निजी | बंजर कदीम | 0-5 | 0.01255 | गुरधरन सिंह - रविंदर सिंह - इंदर सिंह - कानैल सिंह पुत्र राम नेहर सिंह पुत्र रघुनाथ बराबर 151/239 भाग, मनोरमा रानी पत्नी पवन कुमार पुत्र भगत राम 59/239 भाग, कुलभूषण पुत्र रामआशरे पुत्र लक्ष्मण 29/239 भाग |
| | | | 947/417 | निजी | बंजर कदीम | 2-5 | 0.11259 | गुरधरन सिंह - रविंदर सिंह - इंदर सिंह - कानैल सिंह पुत्र राम नेहर सिंह पुत्र रघुनाथ बराबर 151/239 भाग, मनोरमा रानी पत्नी पवन कुमार पुत्र भगत राम 59/239 भाग, कुलभूषण पुत्र रामआशरे पुत्र लक्ष्मण 29/239 भाग |
| | | | 948/417 | निजी | बंजर कदीम | 1-12 | 0.08032 | मनोरमा रानी पत्नी पवन कुमार पुत्र भगत राम 21/32 भाग, कुलभूषण पुत्र रामआशरे पुत्र लक्ष्मण 11/32 भाग |
| | | | 418 | निजी | बराही | 3-7 | 0.16817 | अमर कौर विधवा निक्का सिंह |
| | | | 419 | निजी | बंजर कदीम | 0-8 | 0.02008 | गुरधरन सिंह - रविंदर सिंह - इंदर सिंह - कानैल सिंह पुत्र राम नेहर सिंह पुत्र रघुनाथ बराबर 151/239 भाग, मनोरमा रानी पत्नी पवन कुमार पुत्र भगत राम 59/239 भाग, कुलभूषण पुत्र रामआशरे पुत्र लक्ष्मण 29/239 भाग |
| | | | 435 | निजी | बंजर | 0-4 | 0.01 | अमर कौर विधवा निक्का सिंह 1/2 भाग, बिकमजीत सिंह पुत्र सुरिंदर सिंह 1/2 भाग |
| | | | 436 | निजी | बराही/बंजर कदीम | 5-9 | 0.27359 | अमर कौर विधवा निक्का सिंह 1/2 भाग, बिकमजीत सिंह पुत्र सुरिंदर सिंह 1/2 भाग |
| | | | 437 | निजी | पेट्रोल पम्प | 2-5 | 0.11259 | बिकमजीत सिंह पुत्र सुरिंदर सिंह पुत्र वासुदेव सिंह 71/138 भाग, मैजर् हिंदुस्तान पेट्रोलियम मुम्बई 37/138 भाग |
| | | | 438 | निजी | पेट्रोल पम्प | 0-7 | 0.01757 | बिकमजीत सिंह पुत्र सुरिंदर सिंह पुत्र वासुदेव सिंह 71/138 भाग, मैजर् हिंदुस्तान पेट्रोलियम मुम्बई 37/138 भाग |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----------|-------------|------------------|-------|---------|---|
| | | | 462 | निजी | बंजर कदीम | 1-0 | 0.0502 | किरजा बंकर-देवकी पुतलन मलमल चंद बरकर 1/4 भाग, किरमजीत सिंह पुत्र सुविंदर सिंह पुत्र कलुदेव सिंह 3/4 भाग |
| | | | 463 | निजी | बंजर कदीम | 0-13 | 0.03263 | रंजीत सिंह-बिकन सिंह-रविंदर सिंह पुतलन तथा द्रोणी विधवा निर्मल सिंह बरकर 1/4 भाग |
| | | | 464 | निजी | बंजर कदीम | 0-16 | 0.04016 | रंजीत सिंह-बिकन सिंह-रविंदर सिंह पुतलन तथा द्रोणी विधवा निर्मल सिंह बरकर 1/4 भाग |
| | | | 465 | निजी | बंजर कदीम | 0-7 | 0.01757 | निरका सिंह पुत्र लखन सिंह पुत्र नंगल सिंह |
| | | | 466 | निजी | बंजर कदीम | 1-0 | 0.0502 | महापाल सिंह पुत्र लखी लाल पुत्र रामकिशन |
| | | | 1066/486 | निजी | बंजर कदीम | 1-9 | 0.07279 | महापाल सिंह पुत्र लखी लाल पुत्र रामकिशन |
| | | | 487 | निजी | बंजर कदीम | 3-1 | 0.15311 | महापाल सिंह पुत्र लखी लाल पुत्र रामकिशन |
| | | | 488 | निजी | बंजर कदीम | 1-8 | 0.07026 | किरण कर्मा पत्नी सोमनाथ पुत्र लखन कल 1/2 भाग, अनरजित सिंह पुत्र लखन कल 1/2 भाग |
| | | | 489 | निजी | बंजर कदीम | 2-14 | 0.13554 | किरण कर्मा पत्नी सोमनाथ पुत्र लखन कल 1/2 भाग, अनरजित सिंह पुत्र लखन कल 1/2 भाग |
| | | | 490 | निजी | बंजर कदीम | 0-6 | 0.01506 | सोमनाथ पुत्र लखन कल पुत्र रामकल |
| | | | 501 | निजी | बंजर कदीम | 1-3 | 0.05773 | सोमनाथ पुत्र लखन कल पुत्र रामकल 113/120 भाग, नंगल देवी विधवा अनरजित पुत्र लखन 1/120 भाग, बंर कौर विधवा तथा अनरजित सिंह-अनरजित सिंह-मुकेश सिंह-हरविंदर सिंह पुतलन तथा बलजीत कौर पुत्री जोग सिंह पुत्र अनरजित 6/120 भाग |
| | | | 502 | निजी | बंजर कदीम | 0-15 | 0.03765 | सोमनाथ पुत्र लखन कल पुत्र रामकल |
| | | | 503 | निजी | बंजर कदीम | 1-10 | 0.0753 | सोमनाथ पुत्र लखन कल पुत्र रामकल |
| | | | 504 | निजी | बंजर कदीम | 0-5 | 0.01255 | सोमनाथ पुत्र लखन कल पुत्र रामकल |
| | | | 505 | निजी | बंजर कदीम | 0-15 | 0.03765 | हरपाल सिंह-तारोचन सिंह-बलजिंदर पतसिंह पुतलन अनरजित सिंह पुत्र लखन सिंह बरकर 3/4 भाग, लखन राम पुत्र अनरजित सिंह पुत्र सुविंदर कल सिंह 1/4 भाग |
| | | | 540 | निजी | बंजर कदीम | 0-11 | 0.02761 | हरपाल सिंह-तारोचन सिंह-बलजिंदर पतसिंह पुतलन अनरजित सिंह पुत्र लखन सिंह बरकर 3/4 भाग, लखन राम पुत्र अनरजित सिंह पुत्र सुविंदर कल सिंह 1/4 भाग |
| | | | 543 | निजी | बंजर कदीम | 1-9 | 0.07279 | भुविंदर सिंह पुत्र लखन सिंह पुत्र नंगल सिंह |
| | | | 544 | निजी | बंजर कदीम | 4-14 | 0.23594 | रामनाथ पुत्र बंर राम पुत्र लखन राम 17/94 भाग, लखन पत्नी रामनाथ 17/94 भाग, लखन सिंह पुत्र लखन सिंह 60/94 भाग |
| | | | 545 | पंचायत भूमि | बंजर कदीम | 1-8 | 0.07028 | लखन पंचायत |
| | | | 610 | पंचायत भूमि | बंजर कदीम | 4-13 | 0.23343 | लखन पंचायत |
| | | | 611 | पंचायत भूमि | गैर मुसकिन पहाड़ | 10-10 | 0.5271 | लखन पंचायत |
| | | | 612 | पंचायत भूमि | गैर मुसकिन पहाड़ | 4-10 | 0.2259 | लखन पंचायत |
| | | | 613 | पंचायत भूमि | गैर मुसकिन पहाड़ | 6-12 | 0.33132 | लखन पंचायत |
| | | | 614 | पंचायत भूमि | गैर मुसकिन पहाड़ | 13-3 | 0.66013 | लखन पंचायत |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------|---|
| | | | 619 | पंचायत भूमि | गैर मुनकिन पहाड़ | 13-10 | 0.6777 | ग्राम पंचायत |
| | | | 620 | पंचायत भूमि | गैर मुनकिन पहाड़ | 31-1 | 1.55871 | ग्राम पंचायत |
| | | | 621 | पंचायत भूमि | गैर मुनकिन पहाड़ | 42-18 | 2.15358 | ग्राम पंचायत |
| | | | 622 | पंचायत भूमि | गैर मुनकिन पहाड़ | 4-13 | 0.23343 | ग्राम पंचायत |
| | | | 623 | पंचायत भूमि | गैर मुनकिन पहाड़ | 1-7 | 0.06777 | ग्राम पंचायत |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | एकड़ - कनाल - मरला | | |
| | | | | | कुल | 22-0-6 | 8.836 | |
| | | | | | | | | |
| | | 5. किरतपुर हवेली नं: 373 | 17/20 | निजी भूमि | गुरुद्वारा/स्कूल | 6-0 | 0.3012 | गुरुद्वारा बाबा गुरुदत्त सिंह अग्रिय गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, आनंदपुर साहिब |
| | | | 31/18/2 | निजी भूमि | बंजर कदीम | 0-7 | 0.01757 | राजपाल सिंह पुत्र मेवा सिंह पुतरन लेहना सिंह - सुरजीत सिंह - निर्मल सिंह पुतरन नेहम सिंह पुत्र साध सिंह - गुलजार् सिंह - अजीत सिंह - नयब सिंह - गुरमीत सिंह पुतरन कलतर सिंह पुत्र गुरुदत्त सिंह |
| | | | 18/3 | ग्राम पंचायत/कबजा मालकान | गैर मुनकिन आबादी/दुकान | 0-19 | 0.04769 | ग्राम पंचायत/अनज्जीत कौर विधवा तथा नरिंदर कौर - सतबीर कौर - जगजीत कौर पुत्रिया कुलतार सिंह बराबर 1/64 भाग, राजेन्द्र सिंह - बलबीर सिंह - अक्षर सिंह पुतरन कुलतार सिंह बराबर 1/64 भाग |
| | | | | | | | | श्रीमती जगजीत कौर विधवा तथा मोहिंदर प्रताप सिंह पुत्र प्रवीन सिंह बराबर 1/16 भाग, अमरीक सिंह - गजराज सिंह पुत्र और कुलदीप कौर विधवा हरपाल सिंह पुत्र प्रीतम सिंह 1/32 भाग |
| | | | | | | | | इन्दपाल सिंह - तरलोचन सिंह - बजिंदर पाल सिंह पुतरन आनंद सिंह पुत्र चरन सिंह बराबर भाग 3/32 भाग, अंगद सिंह पुत्र मोहिंदर पाल सिंह 1/32 भाग |
| | | | | | | | 4 | प्रेम कौर विधवा गुरुदियाल सिंह पुत्र वासुदेव सिंह 19/1536 भाग, गुरमीत सिंह - अमर सिंह - बजिंदर सिंह पुतरन गुरुदियाल सिंह पुत्र वासुदेव सिंह बराबर 62/1536 भाग, मनीषा देवी विधवा सुरेंद्र सिंह पुत्र गुरुदियाल सिंह 21/1536 भाग |
| | | | | | | | | बल्ल्या सिंह - तुच्छा सिंह पुतरन वासुदेव सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 101/768 भाग, देव कौर विधवा और जलबीर सिंह पुत्र और दर्शन कौर - मोहिंदर कौर पुत्रिया लाल सिंह पुत्र वासुदेव बराबर 38/768 भाग |
| | | | | | | | | हरमिंदर सिंह पुत्र आत्मा पुत्र हाकिम सिंह बराबर 1/120 भाग, जगत सिंह - नंगल सिंह - दलीप सिंह पुत्र हल्लिम सिंह बराबर 1/40 भाग |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|-------------------------|----------------------------|-----|---------|--|--|
| | | | | | | | | | तारकेश्वर सिंह—अमरजीत सिंह पुत्र और भगवती विद्या उज्ज्वल सिंह बरबर 1/20 भाग, पद्म सिंह—दीनर सिंह—बलवीर सिंह मुकेश और मणि देवी विद्या केन सिंह पुत्र विद्या सिंह बरबर 1/72 भाग |
| | | | | | | | | | मुकेश सिंह—रामवीर सिंह पुत्रराज और उज्ज्वली विद्या अमर सिंह पुत्र विद्या सिंह बरबर 1/72 भाग |
| | | | | | | | | | भूरिंदर कौर विद्या और नरिंदर सिंह—जगदीश सिंह पुत्रराज मुकेश सिंह बरबर 1/72 भाग, अर्जुन सिंह—दलीप सिंह पुत्रराज ज्ञान सिंह बरबर 5/72 भाग, कनका देवी विद्या ज्ञान सिंह 1/72 भाग |
| | | | | | | | | | भगवत सिंह—ज्योति सिंह पुत्र नरिंदर सिंह बरबर 1/12 भाग, रम सिंह—कलराज सिंह पुत्रराज काली राम बरबर 13/84 भाग, कान्हादेव सिंह पुत्र और सुन्दर देवी पुत्री कलराज सिंह बरबर 1/28 भाग |
| | | | | | | | | | रविंदर सिंह—कुरजीत सिंह—विलयाज सिंह—कर्म सिंह पुत्रराज उज्ज्वल सिंह बरबर 2/56 भाग |
| | | | | | | | | | राजपाल सिंह पुत्र ज्योति सिंह 1/384 भाग, सुनील सिंह—निर्जित सिंह पुत्र महिषा सिंह बरबर 1/428 भाग, कुलदेव सिंह—अजीत सिंह—नाथ सिंह—मुकेश सिंह पुत्रराज कलराज सिंह बरबर 1/64 भाग, रचना पुत्र मुंदर पुत्र रम 5/108 भाग |
| | | | | | | | | | जित देवी पत्नी भगवत राम पुत्र काली राम 1/8 भाग, योगेश पत्नी मोहिंदर मुकेश पुत्र रम रम 1/24 भाग, भूरिंदर सिंह पुत्र बीर सिंह 1/24 भाग, निर्मल कालीराम पत्नी ज्ञान चंद पुत्र नाथ उदय 1/12 भाग |
| | | | | | | | | | रमेश्वर दीवान पुत्र दीवान चंद 23/216 भाग, रमेश्वर दीवान पुत्र दीवान चंद 48/216 भाग, श्रीमती सुश्रुत दीवान पत्नी रमेश्वर दीवान पुत्र दीवान चंद 26/216 भाग |
| | | | 23 | ज्ञान पंचमन/कलराज कलराज | बंजर कदीन, मुकेश तथा नरमान | 2-2 | 0.10542 | | ज्ञान पंचमन/अमरजीत कौर विद्या तथा नरिंदर कौर—रतन कौर—जगजीत कौर पुत्रियां कुलदेव सिंह बरबर 1/64 भाग, राजेन्द्र सिंह—कालीर सिंह—अकतर सिंह पुत्रराज कुलदेव सिंह बरबर 1/64 भाग |
| | | | | | | | | | श्रीमती जगजीत कौर विद्या तथा मोहिंदर प्रताप सिंह पुत्र प्रदीप सिंह बरबर 1/16 भाग, अमरीक सिंह—गजराज सिंह पुत्र और कुलदीप कौर विद्या हरपाल सिंह पुत्र प्रीतम सिंह 1/32 भाग |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | इन्द्रपाल सिंह - तरलोचन सिंह - बजिंदर पाल सिंह पुतरान आनंद सिंह पुत्र चरन सिंह बराबर भाग 3/32 भाग, अंगद सिंह पुत्र मोहिंदर पाल सिंह 1/32 भाग |
| | | | | | | | | | प्रेम कौर विधवा गुरदियाल सिंह पुत्र वासुदेव सिंह 19/1536 भाग, गुरभीत सिंह - अमर सिंह - बजिंदर सिंह पुतरान गुरदियाल सिंह पुत्र वासुदेव सिंह बराबर 62/1536 भाग, नानीया देवी विधवा सुरेंद्र सिंह पुत्र गुरदियाल सिंह 21/1536 भाग |
| | | | | | | | | | बल्ल्या सिंह - दुष्पा सिंह पुतरान वासुदेव सिंह पुत्र ठाकुर सिंह 101/768 भाग, देव कौर विधवा और जखबीर सिंह पुत्र और दर्शन कौर - मोहिंदर कौर पुत्रियां लाल सिंह पुत्र वासुदेव बराबर 38/768 भाग |
| | | | | | | | | | हरविंदर सिंह पुत्र आत्मा पुत्र हाकिम सिंह बराबर 1/120 भाग, जगत सिंह - नंगल सिंह - दलीप सिंह पुत्र हल्लिम सिंह बराबर 1/40 भाग |
| | | | | | | | | | तरलोचन सिंह - जमरजीत सिंह पुत्र और भागवंती विधवा उज्जगर सिंह बराबर 1/20 भाग, प्यारा सिंह - सीदार सिंह - बलबीर सिंह पुतरान और जालि देवी विधवा चैन सिंह पुत्र किशन सिंह बराबर 1/72 भाग |
| | | | | | | | | | गुरचरण सिंह - लखविंदर सिंह पुतरान और रुक्मणी विधवा जगतार सिंह पुत्र किशन सिंह बराबर 1/72 भाग |
| | | | | | | | | | भूपिंदर कौर विधवा और नरिंदर सिंह - जलविंदर सिंह पुतरान गुल्बर्खा सिंह बराबर 1/72 भाग, अर्जुन सिंह - दर्शन सिंह पुतरान ज्ञान सिंह बराबर 5/72 भाग, कनला देवी विधवा ज्ञान सिंह 1/72 भाग |
| | | | | | | | | | भगत सिंह - जोगा सिंह पुत्र नरिंदर सिंह बराबर 1/12 भाग, राम सिंह - बलराम सिंह पुतरान कली राम बराबर 13/128 भाग, मनमोहन सिंह पुत्र और तृप्ता देवी पुत्री हरनाम सिंह बराबर 1/28 भाग |
| | | | | | | | | | रविंदर सिंह - सुरजीत सिंह - दिलबाग सिंह - कर्न सिंह पुतरान हरबंस सिंह बराबर 2/56 भाग |
| | | | | | | | | | राजपाल सिंह पुत्र सोना सिंह 1/384 भाग, सुरजीत सिंह - निर्मल सिंह पुत्र महिगा सिंह बराबर 1/428 भाग, गुलजार सिंह - अजीत सिंह - नायक सिंह - गुरभीत सिंह पुतरान करतार सिंह बराबर 1/64 भाग, रचना पुत्र मुंदर पुत्र रत्न 5/108 भाग |
| | | | | | | | | | सीता देवी पत्नी भगत राम पुत्र काशी राम 1/8 भाग, चोपड़ा पत्नी मोहिंदर कुमार पुत्र ज्ञान लाल 1/24 भाग, भूपिंदर सिंह पुत्र बीर सिंह 1/24 भाग, निर्मल भागीरथ पत्नी ज्ञान चंद पुत्र चंद उरूप 1/12 भाग |

[फा. सं. भाराराप्रा/बीओटी-II/11013/1/2006]

प्रभाकर, उप-सचिव

New Delhi, the 31st December, 2008

And whereas the substance of the said notification has been published in "The Indian Express" (English) and "Punjabi Tribune" (Punjabi), both dated the 29th May, 2008; under sub-section (3) of section 3 A of the said Act ;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3 D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3 D of the said act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

| Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 66.600 to Km 73.200 (Kuruli-Kiratpur section) of the National Highway No. 21 in the State of Punjab. | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|---|---------------|--------------|------------------|-----------------------|--------------------|--|
| Serial number | Name of district | Name of taluk | Name of the village with hadbest number | Survey number | Type of land | Nature of land | Area (in Kanal-Maria) | Area (in Hectares) | Name of land owner/interested persons |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Roopnagar | Anandpur Sahib | (1) FATEHPUR H.B. No. 320 | 39 | Panchayat | Gair Mumkin Hill | 3-8 | 0.17068 | Narinder Singh-Mukhlashan Singh-Rupinder Singh S/o Jodhbir Singh equal share 1/36 share, Raghubir Singh-Jasmer Singh S/o Rajinder Singh S/o Jodhbir Singh equal share 1/36 share, Alma Singh S/o Bhagwan Singh 1/6 share |
| | | | | | | | | | Prem Singh-Lakhvir Singh-Sukhbir Singh S/o Inder Singh equal share 1/72 share, Raja Ram S/o Sulekh Chand 1/12 share, Sulekh Chand S/o Pura Chand 1/12 share |
| | | | | | | | | | Shakuntala Devi widow 1/36 share and Raj Kumar-Paras Ram-Brij Mohan-Om Parkash - Salgram S/o Pura equal share 1/18 share, Sardara Ball-Babu sons and Nyajo W/o Meer S/o Bahu equal share 31/72 share, Gurdev Singh S/o Bachan Singh 1/12 share |
| | | | | | | | A-K-M | | |
| | | | | | | Total | 3-8 | 0.17068 | |
| | | | (2) HARDON MRL H.B. No. 318 | 31/1/3/2 | Private | Agriculture | 0-4 | 0.01004 | Joginder Singh-Mahinder Singh S/o Lachman Singh equal share 1/2 share, Smt. Saravjit Kaur w/o Mahinder Singh 8/33 share, Bhrawan Singh-Pritam Singh S/o Ram Kishan equal share 7/22 share |
| | | | | | | | A-K-M | | |
| | | | | | | Total | 0-4 | 0.01004 | |
| | | | (3) MAINPUR HINDOOR H.B. No. 317 | 7/1/6/1 | Private | Agriculture | 1-3 | 0.05773 | Smt. Salinder Kaur W/o Gurdev Singh S/o Kartar Singh |
| | | | | 8/1/10 | Private | Agriculture | 0-10 | 0.0251 | Smt. Salinder Kaur W/o Gurdev Singh S/o Kartar Singh |
| | | | | 8/1/11/1 | Private | Agriculture | 2-15 | 0.13805 | Smt. Salinder Kaur W/o Gurdev Singh S/o Kartar Singh |
| | | | | 8/1/11/2 | Private | Agriculture | 0-15 | 0.03765 | Smt. Salinder Kaur W/o Gurdev Singh S/o Kartar Singh |
| | | | | 20 | Private | Agriculture | 1-19 | 0.091789 | Smt. Salinder Kaur W/o Gurdev Singh S/o Kartar Singh |
| | | | | 21 | Private | Agriculture | 0-14 | 0.03514 | Smt. Salinder Kaur W/o Gurdev Singh S/o Kartar Singh |
| | | | | 26 | Private | Gair Mumkin | 0-4 | 0.01004 | Smt. Salinder Kaur W/o Gurdev Singh S/o Kartar Singh |
| | | | | | | | A-K-M | | |
| | | | | | | Total | 3-8 | 0.4936 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|-----------------------------|---------|-----------|---|--------|---------|--|
| | | | MAHARAJGARH M.B. No. 346 | 231/249 | Panchayat | Gair Mumkin Hill | 2-19 | 0.14809 | Gram Panchayat |
| | | | | 251 | Panchayat | Gair Mumkin Gurdwara, Ravi Das ji | 0-10 | 0.0251 | Kartar Singh-Harpal Singh-Parveen Singh sons and Jaswant Kaur Wd/o Pritam S/o Charan Singh equal share 1/2 share, Anand Singh S/o Charan S/o Thakur Singh 1/2 share (Gair Marusi), Ishar Singh S/o Banta Singh and Surjit Kaur W/o Ishar Singh S/o Babta Singh equal share (Gair Marusi) |
| | | | | 252 | Panchayat | Gair Mumkin Abadi/ Shops | 0-16 | 0.04016 | Kartar Singh-Harpal Singh-Parvinder Singh sons and Jaswant Kaur Wd/o Pritam Singh S/o Charan Singh equal share 1/2 share, Anand Singh S/o Charan Singh S/o Thakur Singh 1/2 share (Gair Marusi), Bhagat Singh S/o Ram Sarup 107/112 share and Jagtar Singh S/o Piyara Singh S/o Batan Singh (Gair Marusi) 5/112 share |
| | | | | 253/1 | | Gair Mumkin Abdomi Pukhata | 0-6 | 0.01506 | Kartar Singh-Harpal Singh-Parveen Singh sons and Jaswant Kaur Wd/o Pritam S/o Charan Singh equal share 1/2 share, Anand Singh S/o Charan S/o Thakur Singh 1/2 share (Gair Marusi) |
| | | | | | | | Contd. | | Ishar Singh S/o Banta Singh and Surjit Kaur W/o Ishar Singh equal share (Gair Marusi), Kartar Singh- Harpal Singh-Parveen Singh sons and Jaswant Kaur Wd/o Pritam Singh S/o Charan Singh equal share 1/2 share, Anand Singh S/o Charan Singh S/o Thakur Singh 1/2 share (Gair Marusi) |
| | | | | 254 | Panchayat | Gair Mumkin abadi | 9-11 | 0.47941 | Panchayat Deh 547/637 share, Bishni W/o Dina Ram S/o Ram Ditta 5/637 share, Prem Kaur D/o Baldev Singh 5/637 share, Harbhajan Singh S/o Nikku 5/637 share, Arjan-Sarjan Ss/o Chetu equal share 10/637 share |
| | | | | | | | Contd. | | Kulwant Singh S/o Amrik Singh 5/637 share, Ram Singh S/o Bholla 5/637 share, Neelam Kumari W/o Yograj 5/637 share, Parkash S/o Shriram 5/637 share, Balbir Singh-Hardev Singh Ss/o Ram Kishan 5/637 share |
| | | | | | | | Contd. | | Sonia W/o Hari Singh 5/637 share, Puran S/o Dolla Ram 5/637 share, Gulzara S/o Hari Ram 5/637 share, Darshan S/o Puran 5/637 share, Brij Mohan S/o Gurditta 5/637 share, Ranjit Singh S/o Pritam Singh 10/637 share |
| | | | | 255 | Panchayat | Abadi/Gair Mumkin Hill | 9-16 | 0.49196 | Gram Panchayat |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---------|-----------|--|------|---------|--|
| | | | | 256 | Panchayat | Shops/Hill/ Abadi | 12-9 | 0.62499 | Joginder Singh S/o Nanak Chand S/o Chanda Singh (Gair Marusi), Kuldip Singh-Jasbir Singh S/o Uttam Singh S/o Nand Singh equal share (Gair Marusi), Tilak Raj-Rajnish Kumar Ss/o Mangat Ram equal share (Gair Marusi), Gurcharan Singh S/o Asha Singh (Gair Marusi), Mahinder Kaur D/o Amar Singh (Gair Marusi) |
| | | | | 257 | Private | Gair Mumkin Rasta | 0-6 | 0.01506 | Gram Panchayat |
| | | | | 258 | Private | Gair Mumkin Hill | 0-5 | 0.01255 | Gram Panchayat |
| | | | | 934/261 | Govt. | Punjab State Electricity Board Gair Mumkin Canal | 4-18 | 0.24598 | Punjab State Electricity Board |
| | | | | 935/261 | Panchayat | Gair Mumkin Hill | 0-12 | 0.03012 | Gram Panchayat |
| | | | | 938/262 | Panchayat | Gair Mumkin Hill | 3-8 | 0.17068 | Punjab State Electricity Board |
| | | | | 272 | Panchayat | Banjar Kadeem | 0-13 | 0.03263 | Gram Panchayat |
| | | | | 273 | Panchayat | Gair Mumkin/Hill | 0-13 | 0.03263 | Gram Panchayat |
| | | | | 276 | Private | Banjar Kadeem | 0-8 | 0.02008 | Tarlok Singh S/o Bir Singh S/o Asha Singh 59/146 share, Rajnish Kumar-Rajan Kumar Ss/o Ram Nath S/o Kishan Chand 73/146 share, Rakesh Kumar S/o Bisamber Das 7/146 share, Rakesh Kumar S/o Manohar Lal 7/146 share |
| | | | | 276/1 | Private | Banjar Kadeem | 0-8 | 0.02008 | Rakesh Kumar S/o Bisamber Das S/o Basanta and Rakesh Kumar S/o Manohar Lal S/o Daya Ram equal share |
| | | | | 987/376 | Private | Barani | 0-17 | 0.04267 | Santi Devi widow and Piyara-Didar Singh-Balbir Singh Ss/o Chain Singh S/o Kishan Singh equal share 1/2 share, Bhupinder Kaur widow and Jaswinder Singh S/o Gurbax Singh S/o Kishan Singh equal share 1/3 share, Gurnam Singh S/o Janig Singh S/o Sunder Singh 1/6 share |
| | | | | 378 | Private | Gair Mumkin Gowdown | 1-10 | 0.0753 | M/s Mohan Transport Co. Shimla |
| | | | | 379 | Private | Banjar Kadeem | 1-13 | 0.08283 | Amrit Lal Khurana S/o Ram Lal S/o Jai Gopal |
| | | | | 381 | Private | Banjar Kadeem/ Abadi | 0-15 | 0.03765 | Amrit Lal Khurana S/o Ram Lal S/o Jai Gopal 62/102 share, Rambhaji S/o Devi Dutt S/o Ralla Ram 22/102 share, Sucha Singh S/o Balak Ram S/o Devi Dutt 20/102 share |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|-----|---------|----------------------------|--------|---------|---|
| | | | | 382 | Private | Gair Mumkin Cho | 0-10 | 0.0251 | Bakhsha Singh-Sucha Singh Ss/o Basdev Singh S/o Thakur Singh equal share 8/21 share, Maya Devi Wd/o Surinder Singh s/o Guridial Singh 1/84 share, Gurmit Singh-Amar Singh-Barjinder Singh Ss/o Guridial Singh S/o Basdev Singh equal share 1/28 share |
| | | | | | | | Contd. | | Gurdev Singh-Supinder Singh- Kulwant Singh Ss/o Sadhu Singh equal share 2/7 share, Gurnam Singh S/o Jang Singh S/o Surinder Singh 1/14 share, Bishan Singh-Kartar Singh Ss/o Ram Singh S/o Bhagwan Singh equal share 1/14 share, Bant Singh S/o Gurbax Singh S/o Chet Singh 1/7 share |
| | | | | 383 | Private | Banjar Kadeem | 0-8 | 0.02008 | Ranjit Singh-Bikram Singh-Ravinder Singh sons and Daropati Wd/o Nirmal Singh equal share 1/4 share |
| | | | | 384 | Private | Banjar Kadeem | 0-14 | 0.03514 | Bakhsha Singh-Sucha Singh Ss/o Basdev Singh S/o Thakur Singh equal share 8/21 share, Maya Devi Wd/o Surinder Singh s/o Guridial Singh 1/84 share, Gurmit Singh-Amar Singh-Barjinder Singh Ss/o Guridial Singh S/o Basdev Singh equal share 1/28 share |
| | | | | | | | Contd. | | Gurdev Singh-Supinder Singh- Kulwant Singh Ss/o Sadhu Singh equal share 2/7 share, Gurnam Singh S/o Jang Singh S/o Surinder Singh 1/14 share, Bishan Singh-Kartar Singh Ss/o Ram Singh S/o Bhagwan Singh equal share 1/14 share, Bant Singh S/o Gurbax Singh S/o Chet Singh 1/7 share |
| | | | | 385 | Private | Banjar Kadeem/ Hotel | 0-16 | 0.04016 | Bakhsha Singh-Sucha Singh Ss/o Basdev Singh S/o Thakur Singh equal share 8/21 share, Maya Devi Wd/o Surinder Singh s/o Guridial Singh 1/84 share, Gurmit Singh-Amar Singh-Barjinder Singh Ss/o Guridial Singh S/o Basdev Singh equal share 1/28 share |
| | | | | | | | Contd. | | Gurdev Singh-Supinder Singh- Kulwant Singh Ss/o Sadhu Singh equal share 2/7 share, Gurnam Singh S/o Jang Singh S/o Surinder Singh 1/14 share, Bishan Singh-Kartar Singh Ss/o Ram Singh S/o Bhagwan Singh equal share 1/14 share, Bant Singh S/o Gurbax Singh S/o Chet Singh 1/7 share |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|------------------|---------|----------------------------|--------|---------|---|
| | | | | 386 | Private | Banjar Kadeem/ Hotel | 1--19 | 0.09789 | Bakhsha Singh-Sucha Singh Ss/o Basdev Singh S/o Thakur Singh equal share 8/21 share, Maya Devi Wd/o Surinder Singh s/o Guridial Singh 1/84 share, Gurmit Singh-Amar Singh-Banjinder Singh Ss/o Guridial Singh S/o Basdev Singh equal share 1/28 share |
| | | | | | | | Contd. | | Gurdev Singh-Supinder Singh- Kulwant Singh Ss/o Sadhu Singh equal share 2/7 share, Gurnam Singh S/o Jang Singh S/o Surinder Singh 1/14 share, Bishan Singh-Kartar Singh Ss/o Ram Singh S/o Bhagwan Singh equal share 1/14 share, Bant Singh S/o Gurbax Singh S/o Chet Singh 1/7 share |
| | | | | 403 | Private | Barani | 0--11 | 0.02761 | Rajnish Kumar-Rajan Kumar Ss/o Ram Nath S/o Kishan Chand equal share 88/130 share, Rakesh Kumar S/o Bisamber Das S/o Basanta and Rakesh Kumar S/o Manohar Lal S/o Daya Ram equal share 22/130 share, Man Singh S/o Sohan Singh S/o Bholla equal share 22/130 share |
| | | | | 1104/40 4 | Private | Barani | 0--13 | 0.03263 | Ashok Kumar S/o Chiranjil Lal S/o Hari Chand |
| | | | | 1105/94 6/405 | Private | Barani | 1--16 | 0.09036 | Ram Singh S/o Kansil Ram 1/2 share, Gian Singh-Gurdev Singh-Sangat Singh Ss/o Lachman Singh equal share 3/8 share, Jaswinder Singh- Kulwinder Singh Ss/o Thakur Singh equal share 1/8 share |
| | | | | 1107/40 8/2 | Private | Barani | 1--11 | 0.07781 | Ram Singh S/o Kansil Ram 1/2 share, Gian Singh-Gurdev Singh-Sangat Singh Ss/o Lachman Singh equal share 3/8 share, Jaswinder Singh- Kulwinder Singh Ss/o Thakur Singh equal share 1/8 share |
| | | | | 1108/40 8/1 | Private | Barani | 0--9 | 0.02259 | Ramesh Chand S/o Ayodha Prashad S/o Munsil Ram |
| | | | | 410 | Private | Banjar Kadeem | 0--16 | 0.04016 | Santi Devi widow and Piyara-Didar Singh-Balbir Singh Ss/o Chain Singh S/o Kishan Singh equal share 1/2 share, Suman Lata W/o Birbal Kumar S/o Ram Ratan 1/2 share |
| | | | | 411 | Private | Banjar Kadeem | 0--11 | 0.02761 | Santi Devi widow and Piyara-Didar Singh-Balbir Singh Ss/o Chain Singh S/o Kishan Singh equal share 1/2 share, Suman Lata W/o Birbal Kumar S/o Ram Ratan 1/2 share |
| | | | | 416 | Private | Banjar Kadeem | 0--5 | 0.01255 | Gurcharan Singh-Ravinder Singh- Inder Singh-Karnail Singh Ss/o Mehar Singh S/o Raghu Nath equal share 151/239 share, Manorma Rani W/o Pawan Kumar S/o Bhagat Ram 59/239 share, Kulbhushan S/o Ram Asharya S/o Lachman 29/239 share |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|--------------|---------|----------------------|------|---------|--|
| | | | | 947/417 | Private | Banjar Kadeem | 2-5 | 0.11259 | Gurcharan Singh-Ravinder Singh-Inder Singh-Karnail Singh S/o Mehar Singh S/o Raghu Nath equal share 151/239 share, Manorma Rani W/o Pawan Kumar S/o Bhagat Ram 59/239 share, Kulbhushan S/o Ram Asharya S/o Lachman 29/239 share |
| | | | | 948/417 | Private | Banjar Kadeem | 1-12 | 0.08032 | Manorma Rani W/o Pawan Kumar S/o Bhagat Ram 21/32 share, Kulbhushan S/o Ram Asharya S/o Lachman Singh 11/32 share |
| | | | | 418 | Private | Barani | 3-7 | 0.16817 | Amar Kaur Wd/o Nikka Singh |
| | | | | 419 | Private | Banjar Kadeem | 0-8 | 0.02008 | Gurcharan Singh-Ravinder Singh-Inder Singh-Karnail Singh S/o Mehar Singh S/o Raghu Nath equal share 151/239 share, Manorma Rani W/o Pawan Kumar S/o Bhagat Ram 59/239 share, Kulbhushan S/o Ram Asharya S/o Lachman 29/239 share |
| | | | | 435 | Private | Barani | 0-4 | 0.01 | Amar Kaur Wd/o Nikka Singh 1/2 share, Bikram Jit Singh S/o Surinder Singh 1/2 share |
| | | | | 436 | Private | Barani/Banjar Kadeem | 5-9 | 0.27359 | Amar Kaur Wd/o Nikka Singh 1/2 share, Bikram Jit Singh S/o Surinder Singh 1/2 share |
| | | | | 437 | Private | Petrol Pump | 2-5 | 0.11259 | Bikramjit Singh S/o Surinder Singh S/o Vasudev Singh 71/138 share, M/s Hindustan Petroleum, Mumbai 37/138 share |
| | | | | 438 | Private | Petrol Pump | 0-7 | 0.01757 | Bikramjit Singh S/o Surinder Singh S/o Vasudev Singh 71/138 share, M/s Hindustan Petroleum, Mumbai 37/138 share |
| | | | | 462 | Private | Banjar Kadeem | 1-0 | 0.0502 | Mirja Shankar-Devaki S/o Narain Chand equal share 1/4 share, Bikram Jit Singh S/o Surinder Singh S/o Vasudev Singh 3/4 share |
| | | | | 463 | Private | Banjar Kadeem | 0-13 | 0.03263 | Ranjit Singh-Bikram Singh-Ravinder Singh sons and Daropati Wd/o Nirmal Singh equal share 1/4 share |
| | | | | 464 | Private | Banjar Kadeem | 0-18 | 0.04018 | Ranjit Singh-Bikram Singh-Ravinder Singh sons and Daropati Wd/o Nirmal Singh equal share 1/4 share |
| | | | | 465 | Private | Banjar Kadeem | 0-7 | 0.01757 | Nikka Singh s/o Lehna Singh s/o Mangal Singh |
| | | | | 466 | Private | Banjar Kadeem | 1-0 | 0.0502 | Yashpal S/o Shadi Lal S/o Ram Kishan |
| | | | | 1066/48 6 | Private | Banjar Kadeem | 1-9 | 0.07279 | Yashpal S/o Shadi Lal S/o Ram Kishan |
| | | | | 487 | Private | Banjar Kadeem | 3-1 | 0.15311 | Yashpal S/o Shadi Lal S/o Ram Kishan |

5074 4208-3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|-----|-----------|------------------|-------|---------|---|
| | | | | 488 | Private | Banjar Kadeem | 1-8 | 0.07028 | Kiran Sharma W/o Som Nath S/o Lachman Das 1/2 share, Amarjit Singh S/o Lachman Das 1/2 share |
| | | | | 489 | Private | Banjar Kadeem | 2-14 | 0.13554 | Kiran Sharma W/o Som Nath S/o Lachman Das 1/2 share, Amarjit Singh S/o Lachman Das 1/2 share |
| | | | | 490 | Private | Banjar Kadeem | 0-6 | 0.01506 | Som Nath S/o Lachman Das S/o Ram Chand |
| | | | | 501 | Private | Banjar Kadeem | 1-3 | 0.05773 | Som Nath S/o Lachman Das S/o Ram Chand 113/120 share, Mamta Devi W/o Jai Ram S/o Lalji 1/120 share, Bant Kaur widow and Amrik Singh-Jaswinder Singh-Sukhdev Singh-Harvinder Singh sons and Baljit Kaur D/o Joga Singh S/o Jai Ram 6/120 share |
| | | | | 502 | Private | Banjar Kadeem | 0-15 | 0.03765 | Som Nath S/o Lachman Das S/o Ram Chand |
| | | | | 503 | Private | Banjar Kadeem | 1-10 | 0.0753 | Som Nath S/o Lachman Das S/o Ram Chand |
| | | | | 504 | Private | Banjar Kadeem | 0-5 | 0.01255 | Som Nath S/o Lachman Das S/o Ram Chand |
| | | | | 505 | Private | Banjar Kadeem | 0-15 | 0.03765 | Inderpal Singh-Tarlochan Singh-Barjinder Pal Singh S/o Anand Singh S/o Charan Singh equal share 3/4 share, Chanan Ram S/o Angad Singh S/o Surinder Pal Singh 1/4 share |
| | | | | 540 | Private | Banjar Kadeem | 0-11 | 0.02761 | Inderpal Singh-Tarlochan Singh-Barjinder Pal Singh S/o Anand Singh S/o Charan Singh equal share 3/4 share, Chanan Ram S/o Angad Singh S/o Surinder Pal Singh 1/4 share |
| | | | | 543 | Private | Banjar Kadeem | 1-9 | 0.07279 | Bhupinder Singh S/o Partap Singh S/o Mela Singh |
| | | | | 544 | Private | Banjar Kadeem | 4-14 | 0.23594 | Ram Parkash S/o Banta Ram S/o Hakka Ram 17/94 share, Tara W/o Ram Parkash 17/94 share, Santa Singh S/o Rakha Singh 60/94 share |
| | | | | 545 | Panchayat | Banjar Kadeem | 1-8 | 0.07028 | Gram Panchayat |
| | | | | 610 | Panchayat | Banjar Kadeem | 4-13 | 0.23343 | Gram Panchayat |
| | | | | 611 | Panchayat | Gair Mumkin Hill | 10-10 | 0.5271 | Gram Panchayat |
| | | | | 612 | Panchayat | Gair Mumkin Hill | 4-10 | 0.2259 | Gram Panchayat |
| | | | | 613 | Panchayat | Gair Mumkin Hill | 6-12 | 0.33132 | Gram Panchayat |
| | | | | 614 | Panchayat | Gair Mumkin Hill | 13-3 | 0.66013 | Gram Panchayat |
| | | | | 619 | Panchayat | Gair Mumkin Hill | 13-10 | 0.6777 | Gram Panchayat |
| | | | | 620 | Panchayat | Gair Mumkin Hill | 31-1 | 1.55871 | Gram Panchayat |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|----|------------------------------|-------------------------------|--------|---------|---|
| | | | | | | | Contd. | | Gurcharan Singh-Lakhwinder Singh sons and Rukmani Wd/o Jagtar Singh S/o Kishan Singh equal share 1/72 share, Bhupinder Kaur widow and Narinder Singh-Lakhwinder Singh Ss/o Gurbax Singh equal share 1/72 share, Arjan Singh-Darshan Singh Ss/o Gian Singh equal share 5/72 share, Kamla Devi Wd/o Gian Singh 1/72 share |
| | | | | | | | Cont'd | | Bhagat Singh-Joga Singh Ss/o Narinder Singh equal share 1/12 share, Ram Singh-Balram Singh Ss/o Kali Ram equal share 13/128 share, Manmohan Singh son and Tripta Devi D/o Harman Singh equal share 1/28 share, Ravinder Singh-Sarjit Singh-Dilbag Singh-Karan Singh Ss/o Harbans Singh equal share 2/56 share |
| | | | | | | | Contd. | | Raj Pal Singh S/o Sona Singh 1/384 share, Sarjit Singh-Nirmal Singh Ss/o Mahiga Singh equal share 1/428 share, Gulzar Singh-Ajit Singh-Niab Singh-Gurmit Singh Ss/o Kartar Singh equal share 1/64 share, Rachna S/o Munder 5/108 share |
| | | | | | | | Contd. | | Sita Devi W/o Bhagat Ram S/o Kansil Ram 1/8 share, Chopra W/o Mohinder Kumar S/o Shayam Lal 1/24 share, Bhupinder Singh S/o Bir Singh 1/24 share, Nirmal Bhagirath w/o Gian Singh S/o Maya Sarup 1/12 share, Rameshwar Diwan S/o Diwan Chand 23/216 share, Ramesh Diwan 48/216, Kusam Diwan W/o Rameshwar Diwan S/o Diwan Chand 26/216 share (ownership as per their existing share). |
| | | | | 23 | Gram Panchayat/ Kabza Malkan | Banjar Kadeem, shops & houses | 2-2 | 0.10542 | Gram Panchayat/Amrajit Kaur widow and Narinder Kaur-Satbir Kaur-Jagjit Kaur Ss/o Kultar Singh equal share 1/64 share, Rajinder Singh-Balbir Singh-Avtar Singh Ss/o Kultar Singh equal share 1/64 share, Jagjit Kaur widow and Mohinder Partap Singh S/o Parvin Singh equal share 1/16 share |
| | | | | | | | Contd. | | Amrik Singh-Gaj Raj Singh sons and Kuldeep Kaur Wd/o Harpal Singh S/o Preetam Singh 1/32 share, Inder Pal Singh-Tarlochan Singh-Bajinder Pal Singh Ss/o Anand Singh S/o Charan Singh equal share 3/32 share, Angat Singh S/o Mohinder Pal Singh 1/32 share |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Prem Kaur widow Gurdial Singh S/o Vasu Dev Singh 19/1536 share, Gurmit Singh-Amar Singh-Bajinder Singh Ss/o Gurdial Singh S/o Vasu Dev Singh equal share 62/1536 share, Mania Devi Wd/o Surinder Singh S/o Gurdial Singh 21/1536 share, Basakha Singh-Sucha Singh Ss/o Vasu Dev Singh S/o Thakur Singh 101/768 share |
| | | | | | | | | | Dev Kaur widow and Jasbir Singh son and Darshan Kaur-Mohinder Kaur Ds/o Lal Singh S/o Vasu Dev equal share 38/768 share, Harminder Singh S/o Atma 1/120 share, Jagat Singh - Mangal Singh-Dalip Singh Ss/o Halim Singh equal share 1/40 share |
| | | | | | | | | | Tarlochan Singh-Amarjit Singh son and Bhagwanti Wd/o Ujjagar Singh equal share 1/20 share, Piyara Singh-Didar Singh-Balbir Singh sons and Santi Devi Wd/o Chain Singh S/o Kishan Singh equal share 1/72 share |
| | | | | | | | | | Gurcharan Singh-Lakhwinder Singh sons and Rukmani Wd/o Jagtar Singh S/o Kishan Singh equal share 1/72 share, Bhupinder Kaur widow and Narinder Singh-Jaswinder Singh Ss/o Gurbax Singh equal share 1/72 share, Arjan Singh-Darshan Singh Ss/o Gian Singh equal share 5/72 share, Kamla Devi Wd/o Gian Singh 1/72 share |
| | | | | | | | | | Bhagat Singh-Joga Singh Ss/o Narinder Singh equal share 1/12 share, Ram Singh-Balram Singh Ss/o Kali Ram equal share 13/128 share, Manmohan Singh son and Tripta Devi D/o Harnam Singh equal share 1/28 share, Ravinder Singh-Sarjit Singh-Dilbag Singh-Karan Singh Ss/o Harbans Singh equal share 2/56 share |
| | | | | | | | | | Raj Pal Singh S/o Sona Singh 1/384 share, Sarjit Singh-Nirmal Singh Ss/o Mahiga Singh equal share 1/428 share, Gulzar Singh-Ajit Singh-Niab Singh-Gurmit Singh Ss/o Kartar Singh equal share 1/64 share, Rachna S/o Munder 5/108 share |
| | | | | | | | | | Sita Devi W/o Bhagat Ram S/o Kansil Ram 1/8 share, Chopra W/o Mohinder Kumar S/o Shayam Lal 1/24 share, Bhupinder Singh S/o Bir Singh 1/24 share, Nirmal Bhagirath w/o Gian Singh S/o Maya Sarup 1/12 share, Rameshwar Diwan S/o Diwan Chand 23/216 share, Ramesh Diwan 48/216, Kusam Diwan W/o Rameshwar Diwan S/o Diwan Chand 26/216 share (ownership as per their existing share). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|-----|-------------------|---------------------------------|---------|---------|----------------|
| | | | | 98 | State Govt | Gair Mumkin Khadan/ Shops | 20--17 | 1.04667 | State Govt. |
| | | | | 111 | Gram Panchayat | Gair Mumkin Rasta | 0--13 | 0.03263 | Gram Panchayat |
| | | | | 115 | Gram Panchayat | Gair Mumkin Rasta | 0--2 | 0.00502 | Gram Panchayat |
| | | | | 116 | State Govt | Gair Mumkin Road | 0--9 | 0.02259 | State Govt. |
| | | | | 166 | State Govt | Gair Mumkin Building | 2--14 | 0.13554 | State Govt |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A-K-M | | |
| | | | | | | Total | 4--2--3 | 1.71433 | |

[F. No. NHA/BOT-II/11013/1/2006]

PRABHAKAR, Dy. Secy.